

REF: DSML/2019-20/NSE/52

October 13, 2020

To,
Department of Corporate Services,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block,
Bandra –Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400051

Scrip Code / Symbol: DSML

Dear Sir/Madam,

Sub: Publication of Postal Ballot Notice In Newspapers

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in terms of our intimation dated October 08, 2020 with regard to Postal Ballot Notice, we are enclosing herewith the copy of newspaper advertisement in relation to completion of dispatch of Postal Ballot Notice to the members of the Company (in electronic form), published in following newspapers:

- Financial Express: English Daily, Nationwide;
- Jansatta: Hindi Daily, Nationwide and
- Nafa Nuksan: Hindi Daily, Jaipur Edition

The said information is also being made available on the website of the Company i.e. www.debockgroup.com.

You are requested to take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Debock Sales and Warketing Limited

Mukesh Manveer Singh

Chairman & Managing Director

DIN: 01765408

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

is even as she appreciated that

Article 293 of the Constitution

clearly spells out the borrowing

freedom for states. Jharkhand

Kerala, Maharashtra, Delhi, Pun-

jab, Rajasthan, Tamil Nadu

Telangana, West Bengal and

Chhatisgarh are the states not on

board with the Centre's proposal

split the compensation into two

parts, Punjab finance minister

Manpreet Badal argued the

Central government should

borrow and credit the amount

to the Compensation Fund for

it to be compensation. The

Attorney General of India

opined that compensation

must be paid within the five

years of transition period and

cannot be delayed beyond these

Thomas tweeted: "Union FM's

announcement that she is going

to permit 21 states to borrow as

per Option one is illegal. Option

one involves deferment of com-

pensation payment beyond 5

years for which a Council deci-

sion is necessary as per AG's

opinion. No such decision has

been made in the Council."

Kerala finance minister Isaac

five years, he pointed out.

Stating that the Centre can't

From the Front Page

caused by the GST implementa-

tion itself and the pandemic — of

₹2.35 lakh crore. However, some

states have said in Monday's

council meeting that the total

shortfallwouldbelowerat ₹1.85

lakh crore. Given that the Centre

has already raised the borrowing

limit for states under the incen-

tivised Option 1 at ₹1.1 lakh

crore from ₹97,000 crore esti-

mated earlier, the Centre could

borrow the entire ₹2.85 lakh

decided to extend the applicabil-

ity of 'compensation cess' on

specified 'luxury and demerit

foods like cars, to bacco items and

aerated drinks beyond the cur-

rent date of June 2022, for such

period as may be required to

meet the revenue gap. This is to

service the planned debt and also

raise the supplementary funds

required for bridging the states'

her concluding speech during

the Council deliberations, in

which all states spoke, that the

dissenting states could not stop

those who wish to exercise the

Option 1 from going ahead. This

Sitharaman stressed during

yawning revenue shortfall.

The Council had earlier

crore, they suggested.

\$100-M FRESH FUNDING Razorpay joins Indian league of unicorns

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, October 12

PAYMENTS PROVIDER Razorpay on Monday said it has gained the 'unicorn'status after having raised \$100-million funding from GIC, Sequoia Capital and existing investors.

in its business during the past six months, Razorpay said it has raised a Series-D fund-raising of \$100 million, giving the company more than \$1 billion

This round was co-led by Singapore's sovereign wealth fund GIC and Sequoia India, along with participation from Ribbit Capital, Tiger Global, Y Combinator and Matrix Partners.

Razorpay plans to use the new funding to further strengthen and accelerate two new product lines — RazorpayX, neo-banking platform; and Razorpay Capital, its lending arm, and invest in new initiatives to empower small and medium enterprises (SMEs).

By 2020-21, the company expects RazorpayX and Razorpay Capital to contribute to 35% of its revenue, with a 100% rise in the company's count of partner businesses. The funds raised will also be used towards hiring additional 500 employees by the end of the current financial year, it said.

"This funding represents a huge endorsement of our belief of powering the financial infrastructure for disruptive businesses, simplifying the entire money flow so that businesses can focus more on disrupting the Indian economy with their new ideas, products and experiences, everyday," said Harshil Mathur, chief executive officer and cofounder, Razorpay.

He said that in the past six months, RazorpayX has witnessed 100% growth, primarily because the company built the product zero-up solely from the eyes of the customers'needs.

"Neobanking is a nascent but fast-developing space in

SKIPPER CIN: L40104WB1981PLC033408 3A, Loudon Street, Kolkata - 700 017

Phone: 033 2289 2327 / 5731 Fax: 033 2289 5733 Email: investor.relations@skipperlimited.con Website: www.skipperlimited.com

Pursuant to Regulation 47 of the SEB (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE

NOTICE

is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 19 October, 2020, inter alia to consider and approve the Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results of the Company for the second quarter and half year ended 30 September 2020. The information available in this notice is also available on the website of the

Company i.e. www.skipperlimited.com and also on the website of the Nationa Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and BSE Limited i.e www.bseindia.com

For Skipper Limited Manish Agarwal (Company Secretary & Date: 12.10.2020 Compliance Officer)

M) PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED Reg. Off.: Thergaon, Pune - 411033. Tel.: 020-40773423 Fax: 020-40773388 Website: www.pudumjee.com E-mail: investors.relations@pudumjee.com CIN: L21098PN2015PLC153717

NOTICE NOTICE is hereby given that

pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of Pudumjee Paper Products Limited is scheduled to be held on Thursday. 22nd October, 2020, to consider and approve, inter alia, the Unaudited Financial Results of the Company along with the Limited Review Report for the

This Notice is also available on the Company's website i.e. www.pudumjee.com and also on the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited (www.bseindia.com and www.nseindia.com).

Quarter and Half year ended on

30th September, 2020.

In compliance with provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and in terms of Insider Trading Policy of the Company, the Trading Window for dealing in the securities has been closed from 1st October, 2020 upto 48 hours after the declaration of financial results of the Company i.e., 24th October, 2020 (both days inclusive) for the Quarter and Half year ended on 30th September, 2020.

> For PUDUMJEE PAPER PRODUCTS LIMITED Sd/-

13th October, 2020 Vinay Jadhav Company Secretary

Co-origination game-changer for NBFCs, HFCs: ShriramCity

SAJAN C KUMAR Chennai, October 12

SHRIRAM CITY UNION Finance (ShriramCity) has said the Reserve Bank of India (RBI)'s renewed thrust on coorigination of loans can be a game-changer for both nonbanking financial companies (NBFCs) and housing finance companies (HFCs).

YS Chakravarti, MD & CEO, Shriram City Union Finance, told FE the earlier policy had been applied only to nondeposit taking NBFCs and most banks could not agree with NBFCs on the sourcing norms and the filters to be applied.

"So, they were comfortable buying PSL books through the securitisation or direct assign-

Welcoming the on-tap

earlier TLTRO can be subsumed into the proposed one by pre-closing earlier one and extended under the present one. So, this will make available more money to NBFCs and HFCs rated below AAA... Hope non- AAA-rated entities get access in a big way," he said.

loans, Chakravarti said in the earlier policy, the risk weight was a function of both LTV as also the loan size. The dual checks brought in fewer loans under the lower risk weight. "Now, the RBI has removed the condition of loan size, meaning thereby as long the LTV norm is met, irrespective of the loan size, lower risk weight will apply. This will help HFCs funding premium segment housing..."

RBI announces portfolios of deputy governors

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai, October 12

THE RBI ON Monday reallocated portfolios of deputy governors, with the department of regulation entrusted to newlyappointed M Rajeshwar Rao. Rao was executive director of

For Oberoi Realty Limited

Bhaskar Kshirsagar

Company Secretary

Vikas Mehra

Company Secretary

OBERO

OBEROI REALTY LIMITED

Regd. Office: Commerz, 3rd Floor, International Business Park, Oberoi Garden City,

Off Western Express Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400063

CIN: L45200MH1998PLC114818: E-mail Id: cs@oberoirealty.com

Website: www.oberoirealty.com; Tel: +91 22 6677 3333; Fax: +91 22 6677 3334

Notice is hereby given that in terms of the provisions of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of Oberoi

Realty Limited will be held on Saturday, October 17, 2020, to, inter alia, consider and approve

This notice is also available on the Company's website at www.oberoirealty.com and on the

website of BSE Limited at www.bseindia.com and the National Stock Exchange of India

A ICICI Lombard

ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

(CIN: L67200MH2000PLC129408)

Registered Office: ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai 400 025

Tel.: 022-61961100, Fax: 022-61961323

Website: www.icicilombard.com, Email: investors@icicilombard.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that in terms of Regulation 29 read with Regulation 47 of

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of the Company at

its meeting to be held on Friday, October 23, 2020 in Mumbai will, inter-alia,

consider approval of the Audited Financial Results for the guarter and half-year

The Financial Results will be available on the website of BSE Limited

(www.bseindia.com), National Stock Exchange of India Limited

(www.nseindia.com) and on the website of the Company

ICICI Lombard General Insurance Company Limited, ICICI trade logo displayed above

belongs to ICICI Bank and is used by ICICI Lombard General Insurance Company

Limited under license and Lombard logo belongs to ICICI Lombard General Insurance

Company Limited. Registered Office: ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar

Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai - 400 025.

IRDA Reg. No. 115. Toll Free No. 1800 2666. Fax No. 022-61961323.

CIN L67200MH2000PLC129408. UIN 10594. Website: www.icicilombard.com.

KENNAMETAL INDIA LIMITED

CIN: L27109KA1964PLC001546

Registered Office: 8/9th Mile, Tumkur Road,

Bengaluru, Karnataka-560073

Tel.: 080-28394321 / 22198345, Fax: 080-28397572

Website: www.kennametal.com/kennametalindia

Email: in.investorrelation@kennametal.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS TO REGISTER

THEIR E-MAIL ID WITH THE COMPANY

The Fifty Fifth (55th) Annual General Meeting (AGM) of the

Company will be held over Video Conference (VC) or Other

Audio Visual Means (OAVM) at 12:00 Noon on Wednesday,

the 11th day of November, 2020 in compliance with General

Circulars No. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 and all other

circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA),

Government of India and Securities and Exchange Board of

India (SEBI), to transact the business as set out in the Notice

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20

is being sent only by electronic mode to those Members whose

email addresses are registered with the Company/Depositories

in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI

Circular dated May 12, 2020. Shareholders holding shares

in dematerialized mode, are requested to register their email

addresses and mobile numbers with their relevant depositories

through their depositary participants. Shareholders holding

shares in physical mode are requested to furnish their email

addresses and mobile numbers with the Company's Registrar

and Share Transfer Agent Integrated Registry Management

Services Private Limited at irg@integratedindia.in or alternatively

can furnish the details to the Company at in.investorrelation@

kennametal.com. The notice of fifty fifth (55th) AGM and Annual

Report 2019-20 will also be made available on the Company's

website, at https://www.kennametal.com/in/en/about-us/kil-

financials.html, BSE Limited at www.bseindia.com and on the

Shareholders will have an opportunity to cast their vote remotely

on the business as set forth in the Notice of the AGM though

electronic voting system. Additionally, the Company is providing

the facility of voting through e-voting system during the AGM.

The manner of voting remotely for shareholders holding shares

in dematerialized mode, physical mode and for shareholders

who have not registered their email addresses will be provided

The Fifty Fifth (55th) AGM Notice will be sent to the Shareholders

in accordance with the applicable laws on their registered email

website of CDSL at www.evotingindia.com.

in the Notice to the Shareholders.

addresses in due course.

Date : October 12, 2020

Place: Bengaluru

For ICICI Lombard General Insurance Company Limited

(www.icicilombard.com) after the approval of the Board.

Email: customersupport@icicilombard.com

the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended September 30, 2020.

the RBI before being elevated to the post of deputy governor. Besides the department of

regulation, Rao will look after the departments of communication, enforcement, inspection, legal, and risk monitoring, the central bank said in a statement.

NEWGEN

Date: 12.10.2020

Place: New Delhi

Sahi Hai

MUTUALFUNDS

will continue to look after the monetary policy department. According to the RBI

Deputy governor MD Patra

release, deputy governor MK Jain will look after central security cell, corporate strategy and Budget department, among others.

NEWGEN SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED

CIN: L72200DL1992PLC049074

Regd. Office: A-6, Satsang Vihar Marg, Qutab Institutional Area,
New Delhi — 110067, Tel.: +91-11-40770100, 26963571,
Fax: +91-11-26856936, Website: https://newgensoft.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on

Wednesday, 21st October 2020, inter alia, to consider and approve the

unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company

for the 2nd Quarter and Half year ended 30th September 2020 and to consider

share based employee benefits Scheme and obtaining necessary approvals

from members of the Company through postal ballot, as may be necessary in

The said information is also available on the website of the Company at

https://newgensoft.com and website of the Stock Exchanges at

www.bseindia.com and www.nseindia.com

Whilst care is taken prior to

any manner whatsoever.

"IMPORTANT"

acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

Haq, ek behtar zindagi ka.

NOTICE - CUM - ADDENDUM

Changes in provisions of Statement of Additional Information (SAI)

For Newgen Software Technologies Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Aman Mourya

The following provisions are added in SAI with immediate effect;

In October 2020, UTI AMC ltd offered its equity shares under Initial Public Offer (IPO) and listed the same on National Stock Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) on October 12, 2020. After the IPO allotment, the shareholding of Sponsors and T. Rowe Price International Ltd is as follows.

Particulars	% of paid up equity share capita	
State Bank of India	9.99	
Life Insurance Corporation of India	9.99	
Bank of Baroda	9.99	
Punjab National Bank	15.24	
T. Rowe Price International Limited	23.00	
Other shareholders	31.79	

The above changes are appropriately incorporated in SAI.

This addendum No. 14/2020-21 is an integral part of the Statement of Additional Information (SAI) and Scheme Information Document (SID)/Key Information Memorandum (KIM) of the schemes of UTI Mutual Fund and should be read in conjunction with SAI & SID/KIM.

For UTI Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

In case any further information is required, the nearest UTI Financial Centre may please be contacted.

Mumbai October 12, 2020

Toll Free No.: 1800 266 1230

Website: www.utimf.com

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 – 66786666. UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, (CIN-U65991MH2002PLC137867). For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual

Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

E-Land Apparel Ltd.

Jaipur

Office: #16/2B, Sri Vinayaka Indl Estate, Singasandra Near Dakshin Honda Showroom Hosur Road, Bengaluru, Kamataka - 560058 INDIA Website: www.elandapperel.com No. +91-22-40972600 Fax: +91-22-40972601 CIN NO.:L17110KA1997PLC120558

POSTAL BALLOT NOTICE

Members of the Company are hereby informed that the Company has, on Monday, October 12, 2020 completed the dispatch of Notice of Postal Ballot pursuant to the applicable provisions of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder along with the Postal Ballot form and self- addressed postage pre-paid envelop to the members whose e-mail Ids are not registered and sent e-mail to the Members whose e-mail Ids are registered as on Friday, October 09, 2020 seeking approval on the business set out in the Postal Ballot notice including e-voting by electronic means.

Mrs. Kumudini Bhalerao, Partner at Makarand M. Joshi & Co, Company Secretaries, is appointed as the Scrutinizer for conducting the postal ballot voting process in a fair and transparent manner.

The e-Voting period begins from Tuesday, October 13, 2020 (9:00A.M) and ends on Wednesday, November 11, 2020 (5:00 P.M); the voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on the resolution is cast by the members, the members shall not be allowed to change it subsequently. Any Postal ballot form received by post from the members after Wednesday, November 11, 2020 (5:00 P.M) will be strictly treated as if no reply from such member(s) has been received.

In case any Member has any query or issues regarding e-voting, he/she can refer the frequently asked Questions (FAQ's) and e-voting manual available at www.evoting.nsdl.com under help/FAQ's Section or write an email to evoting@nsdl.co.in Members who have not received the from and desirous of seeking duplicate form can send

email to marketing@bigshareonline.com. Further, the notice is also displayed on the website of the company www.elandapparel.com and on the website of the e-voting agency www.evoting.nsdl.com Any grievances pertaining to the postal ballot process can contact Mr. Diwakar

Jugani, Company Secretary of the Company, Phone No.: 8149014461 Email ID: investor@elandapparel.com

The result of the voting of postal ballots and e-voting will be declared by the chairman or any other Director of the Company on or before Friday, November 13, 2020. The result will also be intimated to the Stock exchange and updated on the Company's website

> By order of the Board of Directors Mr. JAE HO SONG Managing Director

For Kennametal India Limited Sd/-

Place: Mumbai

Date: 12" October, 2020

Naveen Chandra P General Manager - Legal & Company Secretary

VAISHALI PHARMA LTD. (Formerly known as Vaishali Pharma Pvt. Ltd.)

Corp. & Reg. Office: 706-709, 7th Floor, Aravali Business Centre, R. C. Patel Road, Off. Sodawala Lane, Borivali (West), Mumbai - 400092, CIN: L52310MH2008PLC181632 Tel.: +91-22-42171819 | Fax: +91-22-28928833 | E-mail: info@vaishalipharma.com

Extract of Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2020

(Rs. In Lakhs) Quarter Quarter Half Year Half Year Ended Ended Ended Ended Ended 30-Sep-20 | 30-June-20 30-Sep-19 30-Sep-20 30-Sep-19 (Unaudited) (Unaudited) Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 356.63 1,038.49 1,359.60 2,858.24 1,002.99 104.15 0.33 78.19 104.47 78.97

Year Ended Particulars 31-Mar-20 (Audited) Total Income from Operations 6,008.57 Net Profit before Tax. Exceptionalitems 7.91 Net Profit before tax after Exceptional items 104.15 0.33 78.19 104.47 78.97 7.91 Net Profit after tax. Exceptional items 77.07 0.24 57.86 77.30 58.44 3.28 77.07 57.86 77.30 58.44 2.05 Total Comprehensive Income 0.24 Equity Share Capital ,05,46,213 1,05,46,213 1,05,46,213 1,05,46,213 ,05,46,213 1,05,46,213 Earnings Per Share 1. Basic: 0.01 0.55 0.73 0.55 0.03 0.732. Diluted: 0.73 0.01 0.55 0.73 0.55 0.03

NOTE:- The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Half Year Ended September 30, 2020 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation) and Disclosure Requirement) Regulation, 2015. The Detailed format of the Un-Audited Standalone Financial Results are available on the Stock Exchange Websites:- www.nseindia.com and on the Company Website:www.vaishalipharma.com

By order of the Board

For Vaishali Pharma Limited Atul Vasani

Managing Director

Date: October 12, 2020 Place: Bengaluru

www.elandapparel.com .

DIN: 07830731

financialem.eper.in

SOLUTION Witnessing a 300% growth Harshil Mathur in valuation.

Mathur said. Choo Yong Cheen, chief

the Indian market and has the potential to become the onestop platform for a business' banking needs. This pushes us to develop new technologies that meet the rising demand,"

investment officer (private equity) at GIC, said, "India has made significant strides in establishing a digital payments ecosystem and Razorpay has established itself as a clear leader, with its strong focus on customer experience and product innovation."

Limited at www.nseindia.com.

ended on September 30, 2020.

October 12, 2020

KENNAMETAL

of the Meeting.

Place: Mumbai

Date: October 10, 2020

ment route. Hopefully this time,

The company had AUMs of ₹29,085 crore and a customer base of more than 4.76 million as on March 31, 2020

considering even deposit-taking NBFCs can participate, the market becomes much wider, and with appropriate risk sharing mechanisms this new policy can be a game-changer for both NBFCs and HFC,"he said.

TLTRO, he said it is now being extended for three years with flexibility to extend post a review. Earlier, TLTROs were focused on bonds and CPs, but the present one announced also can be for bank loans. "The

On rationalisation of risk compensation requirement is weights on individual housing likely for a short tenure of two years or so and given that the special window will allow states to raise funds at costs close to the G-sec rates, the apprehen-

sions of the dissenting states of a cost arising from the options presented by the Centre are unfounded."There is no need to compare the rate of borrowing with 10-year G-sec yield. The two-year borrowing rate for the Centre is sub-5% and the borrowing rate for the Centre for 5 years is sub-6%. It will be much lower than expectations of some people as tenure of loan would

GST shortfall: No

meeting ground;

21 states to

borrow, others

may move court

ECONOMIC AFFAIRS secretary

Tarun Bajaj pointed out that

since the borrowings for the GST

The Centre had earlier estimated the states' total GST revenue shortfall in the current financial year at ₹3 lakh crore and that some ₹65,000 crore would accrue from the compensation cess. This indicated a total shortfall — including those

be much shorter," Bajaj added.

Registered Office: Debock House, 51, Lohiya Colony, 200ft. Bypass, Vaishali Nagar, Jaipur – 302 021. Ph:0141 – 2358654 | Tele Fax:0141 - 2359381 Email: info@debockgroup.com Website:www.debockgroup.com CIN:L52190RJ2008PLC027160

DSML

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the

Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and MCA Circular No. 14/2020 dated 08 April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13 April, 2020 and Circular No. 22/2020 dated 15 June 2020, in relation to "Clarification on passing of Ordinary and Special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 ("CA 2013") and the rules made thereunder the account of threat posed by Covid-19" issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circular"), and all other applicable rules framed under CA 2013 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the company has on October 08, 2020 completed dispatch of the postal ballot notice along with explanatory statement (in electronic form) to all the members whose email ids are registered with the company or with the depositories or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA). The Company seeks approval of the members for the below mentioned resolutions as set out in the postal ballot notice dated Thursday, October 01, 2020 by electronic means (remote e-voting): Item No.

1	Regularization of Mr. Aakash Kumar as Executive Director	Ordinary Resolution
2	Regularization of Mr. Sonu Sharma as Non-executive Director	Ordinary Resolution
3	To issue, offer and allot Equity Shares on Preferential basis for consideration other than cash by way of conversion of unsecured loan	Special Resolution
4	To issue, offer and allot Equity Shares on Preferential basis for consideration other than cash against payment of lease rent	Special Resolution
5	Migration of Equity Shares of the Company from EMERGE Platform to Main Board of National Stock Exchange of India Limited (NSE).	Special Resolution

by the Depositories as on the Cut-Off date i.e. October 03, 2020, will be entitled to cast their votes through remote e-voting. A person who is not a member on the Cut-Off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purpose only. On account of the threat posed by Covid-19 and in terms of the MCA Circulars, the Company will send this postal ballot notice in electronic form only. The hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for the postal ballot in accordance with the requirements specified under the MCA Circulars. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only.

The members whose email ids are not registered with the company or Depository Participant(s) as on the Cut-Off Date are requested to register their email ids by sending an e-mail to Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the company, i.e. Cameo Corporate Services Limited, E-mail: cameo@cameoindia.com or to the company at cs@debockgroup.com with name of registered shareholder(s), folio number(s), DP Id/Client Id and Number of equity shares held from the email address they wish to register to enable them to exercise their vote on resolutions as set out in Postal ballot notice through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India)

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting, through remote e-voting will commence from Friday, October 09, 2020 (9:00 A.M. IST) to Saturday, November 07, 2020 (5:00 P.M. IST), the voting shall be disabled thereafter. The Notice is available on Company's website: www.debockgroup.com and on CDSL's e-voting website: www.evotingindia.com.

The Board of Directors has appointed M/s Ayush Khandelwal & Associates, Practicing Company Secretary Firm, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot only through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800-225-533 or to the Company at cs@debockgroup.com.

Any queries/grievances relating to the proposed resolutions to be passed by postal ballot including e-voting may be addressed to Ms. Heena Lakhani, Company Secretary of the Company at cs@debockgroup.com. The results of the Postal Ballot remote e-voting will be declared by the Chairman or the

Company Secretary of the Company on or before Monday, November 09, 2020 at the Registered Office of the Company. Such results, along with Scrutinizer's Report, will be available on the Company's website www.debockgroup.com under the 'Investors' section and will be forwarded to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and

For Debock Sales & Marketing Limited

Mr. Mukesh Manveer Singh Chairman & Managing Director DIN: 01765408

October 13, 2020

शेयर बाजार पर वित्त मंत्री की घोषणाओं का मिला-जुला असर

मुंबई, 12 अक्तूबर (भाषा)।

अर्थव्यवस्था में मांग बढाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण की सोमवार को नई घोषणाओं के बीच शेयर बाजारों में लगातार आठवें कारोबारी सत्र में तेजी रही और सूचकांक 84 अंक की बढ़त के

बाजार विश्लेषकों के अनुसार वित्त मंत्री की घोषणा का असर मिला-जुला रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा देश में त्योहरों के दौरान मांग को बढावा देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए की गई घोषणा का शुरू में बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन उनकी घोषणाएं निवेशकों को

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक में शुरुआती कारोबार में करीब 400 अंक की तेजी आई। लेकिन बाद में यह तेजी जाती रही। अंत में यह 84.31 अंक यानी 0.21 फीसद मजबूत होकर 40,593.80 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16.75 अंक यानी 0.14 फीसद हल्की तेजी के साथ 11,930.95 अंक पर बंद हुआ। दोनों सूचकांकों में लगातर आठवें सत्र में तेजी बनी रही।

आइटीसी रही। इसमें 2.59 फीसद से अधिक की तेजी आई। जिन अन्य प्रमुख शेयरों में तेजी रही,

उनमें इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, एचसीएल टेक, मारुति, पावरग्रिड, आइसीआइसीआइ बैंक और टीसीएस शामिल हैं। दूसरी तरफ जिन प्रमुख शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, उनमें भारती एअरटेल, ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक और

प्रमुख अर्जुन यश महाजन ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता मांग को बढ़ाने के लिए ऋण और नकद वाउचर की पेशकश की, वह अल्पकालीन उपाय है। इसमें सतत वृद्धि को लेकर प्रतिबद्धता की कमी का अभाव है। इससे त्योहारों या वित्त वर्ष के अंत तक मांग में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे कोई जरूरी नहीं है कि एक सतत पुनरुद्धार को बढ़ावा मिले। यह बाजार को संभवतया आकर्षित नहीं कर पाएगा। हालांकि महाजन ने कहा कि उच्च पंजीगत व्यय बनियादी ढांचा कंपनियों के लिए बेहतर है क्योंकि इससे नए आर्डर बढेंगे। साथ ही बनियादी ढांचा क्षेत्रों से जुडे कार्यों में तेजी आएगी।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 1.38 फीसद की गिरावट के साथ 42.26 डॉलर प्रति बैरल पर चल रहा था। विदेशी विनिमय बाजार में अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे गिरकर

कब्जा

सुचना

एचडीबी फाइनीसियल सविसेस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः राधिका, २रा तल, लॉ गार्डन रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात, पिन कोड-380009 शाखा कार्यालयः एडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लि.. 19 पंचकडयां नगर, भारत नगर पहाडगंज, नई दिल्ली-11000°

सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली. 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रद शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारक को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों वे भीतर सचना में वर्णित राशि के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, चार्जेज, खर्चे आदि को वापस लौटाने का निर्देश दिया था। उक्त ऋणधारक सह–ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे. अतः एतदद्वारा ऋणधारक, सह–ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित रूप में अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षर उसमें निर्दिष्ट राशि के लिए एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा

ऋणधारक तथा सह-ऋणधारकों/गारन्टरों. ऋण खाता संख्या. ऋण की राशि. प्रतिभति का विवरण मांग सचना तिथि. मांग की गई राशि तथा कब्जा की तिथि का

ऋणधारक∕सह-ऋणधारक∕गारन्टर का नाम एंव पताः अरुण सेठी. मकान सं. 10730. प्रताप नगर. गली नं. 13 नई दिल्ली-110007: राकेश सेठी मकान सं. 10730, प्रताप नगर, गली नं. 13, प्रथम तल, नई दिल्ली-110007 तथा राखी सेठी, मकान सं. 10730, प्रताप नगर, गली नं. 13, नई दिल्ली-110007 2) **ऋण खाता सं.** 3636663: **3) ऋण राशि**: रु. 65.00.000/- (रुपये पैंसठ लाख मात्र): 4) प्रतिभति का विवरण: मकान सं. 10730. भ तल एवं प्रथम तल, प्रताप नगर, गली नं. 13, नई दिल्ली-110007 का सभी भाग तथा हिस्सा, चौहद्दीः पूर्वः गली नं. 12, पश्चिमः गली नं.13; उत्तरः 10731, दक्षिणः 10729; 5) मांग सूचना तिथिः 02.07.2020; 6) मांग की गई राशि (आईएनआर में)ः रु. 67,20,646.84 (रुपये सड़सठ लाख बीस हजार छः सौ छियालिस तथा पैसे चौड़ासी मात्र) 30.06.2020 को तथा वास्तविक वसुली तक अनुषांगिक खर्चे, लागत, चार्जेज के साथ अनुबंधित दर के अनुसार आगे का ब्याज। 7) कब्जा की तिथिः 8.10.2020

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए कृपया सम्पर्क करें: श्री हरदीप सभरवाल, फोन नं. 9654965496, श्री विकास आनंद (9711010384) तिथि: 12.10.2020 एचडीबी फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये प्राधिकृत अधिकारी

कब्जा सूचना केनरा बैंक Canara Bank 🖇 (अचल सम्पत्ति हेतु) Trifficial Syndicate

जबकि, अद्योहस्ताक्षरी ने केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, (2002 का संख्याक 54) की धारा 13(12) तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एक मांग पत्र निम्न प्रत्येक खाते के आगे वर्णित दिनांकों को (विवरण निम्न वर्णित है) सम्बन्धित ऋणियों तथा सम्पत्ति के मालिकों रं भुगताने की मांग करते हुये संबन्धित सूचना के अन्तर्गत राशि इस सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों में भुगतान करने के लिये निममित किया। सम्बन्धित ऋणियों द्वारा राशि के भूगतान में असफल होने पर ऋणियों को तथा जन सामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित नियमों के नियम 8 व 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया गया है। सम्बन्धित ऋणियों / मालिको को विशेषता तथा जन सामान्य को सुचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों में कोई व्यवहार न करे तथा उक्त सम्पत्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार केनरा बैंक से संबन्धित राशि एवं व्याज व अन्य खर्ची के अधीन होगा।

	का नाम		बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के तिथि और उसके अनुसार बकावा राशि	सांकेतिक कब्जे की तिथि एवं स्थान
1.	बरेली	ब्यूटी प्रोडक्ट्स (प्रोपराइटर और बंधककर्ता श्रीमती	संपत्ति के सभी भाग और पार्सल दुकान संपत्ति स्थित पटेल नगर बालाजी मंदिर के पास, बदायूं रोड, बरेली । संपत्ति श्रीमती सावित्री मिश्रा पत्नी श्याम बाबू के नाम, क्षेत्रफल 7.43 वर्गमीटर, सीमायें:— उत्तरः मार्ग, दक्षिणः वेंडर का मकान, पूर्वः रौनक मेडिकल होंल की दुकान स्वामित्व विवेक, पश्चिमः वेंडर और अन्य की दुकान	09.06.2020 रू0 533145.00 + ब्याज व अन्य खर्चे	09.10.2020 ਵਵੇਲੀ
2.	श्यामगंज	इनवर्टर, श्री मुश्फिक अहमद (प्रोपराइटर और बंधककर्ता),श्री अनीस अहमद (गारंटर और	वाणिज्यिक संपत्ति (दुकान) स्थित मीहल्ला सोफी टोला ओल्ड सिटी, बरेली, संपत्ति श्री अनीस अहमद, श्री मुश्फिक अहमद और श्री मीहम्मद आलम सभी पुत्र श्री मीहम्मद जुमेराती के नाम, क्षेत्रफल 6.92 वर्गमीटर। सीमार्थे:— उत्तरः सोएब अंसारी की दुकान (सोएब जरी आर्ट), दक्षिणः अथर अली का मकान, पूर्वः रास्ता, पश्चिमः अलाउद्दीन का मकान	19.09.2019 ২০ 1060306.00 + ম্যাতা ব अन्य	09.10.2020 ਕਵੇਲੀ
दि	नांक:-	12.10.2020		प्राधिकृत अधिव	कारी •

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड कब्जा **€** kotak पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051 शाखा कार्यालयः 7वाँ तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर-125, डेल कैम्पस के निकट, नोएडा, उ.प्र.-201313

जैसा कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, (2002 के 54) के अंतर्गत कोटक महिन्द्रा बैंक लिमि. के प्राधिकृत अधिकार के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना ऋणधारक के लिये नीचे वर्णित रूप में जारी कर संबंधित ऋणधारकों को सभी लागतों, चार्जेज तथा भुगतान की वास्तविक तिथि तक खर्चे के साथ सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था। उक्त ऋणधारक/ सह-ऋणधारक (कों) इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदृद्वारा ऋणधारक/ सह-ऋणधारक(कों) तथा आम जनता को एतद्रद्वारा सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय

संबंधित तिथि से आगे के ब्याज, लागत, चार्जेज के साथ उस में निर्दिष्ट राशि के लिये कोटक महिन्द्रा बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती

है। ऋणधारकों, अनुसुचित सम्पत्ति, बकाया देयता, धारा 13(2) के अंतर्गत भेजी गई मांग सुचना तथा उसमें मांग की गई राशि तथा कब्जा की तिथि का विवररण इस प्रकार है:

			मांग सूचना तिथि
	12.		बकाया राशि रु. मे
श्रीमती कुलदीप कौर, पत्नी स्व. राजिन्दर सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह, पुत्र स्व. राजिन्दर सिंह,			
श्री राकेश जैन, पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन एवं मै. नेशनल ऑटो इंडस्ट्रीज, द्वारा उसके	आबादी में ग्राम खुरेजी खास में स्थित बिजली तथा वाटर	2.	10.3.2016
पार्टनर श्री राकेश जैन, सभीः 1–3ए, गली नं. ७, कुन्दन नगर, नई दिल्ली–110092,	टैप के कनैक्शन से युक्त सम्पत्ति सं. 1/3-ए, क्षेत्रफल	3.	11.3.2016 से सम्पूर
श्रीमती कुलदीप कौर, पत्नी स्व. राजिन्दर सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह, पुत्र स्व. राजिन्दर सिंह	माप 101.2/3 वर्ग यार्ड्स, रेक्ट. नं. 38, किल्ला नं. 22		भुगतान तक लागू हो
एवं मै. नेशनल ऑटो इंडस्ट्रीज, द्वारा उसके पार्टनर श्री राकेश जैन, सभी: 1/2285ए,	में स्थित के भाग में आनुपातिक भूमि अधिकार के साथ		वाले ब्याज के साथ
मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032 तथा कुलदीप कौर, पत्नी स्व. राजिन्दर सिंह,	टैरेस/छत के अधिकार के बिना केवल ऊपरी भू तल पर		10.3.2016 को बक
श्री गुरप्रीत सिंह, पुत्र स्व. राजिन्दर सिंह साथ ही: 39-सी, पॉकेट-ए, दिलशाद गार्डन,	फ्लैट की सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की		तथा देय रु.
दिल्ली-110095, तथा साथ ही: टी-16, 3रा तल, साई निवास, नवीन शाहदरा, शनि	चौहद्दीः पूर्वः अन्य सम्पत्ति, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः		17,19,634/- (रुपरं
मंदिर के निकट, दिल्ली-110032 तथा श्री राकेश जैन, पुत्र श्री ओम प्रकाश जैन, 49,	20 फीट चौड़ा रोड, दक्षिणः मार्टगैजर का नामः श्री		सत्तरह लाख उन्नीस

ऋण खाता सं.: 14161257 स्वीकृत ऋण राशिः रु. 11,91,000/- (रुपये ग्यारह लाख इक्यानवे हजार मात्र) स्थानः दिल्ली

ऋणधारक, सह-ऋणधारक का नाम एवं पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि

रिषभ विहार, दिल्ली-110092

कोटक महिन्द्रा बैंक लि. के लिये तिथि: 9.10.2020 प्राधिकृत अधिकारी

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया सम्पर्क करें: श्री सोमेश सुन्द्रियाल (+91 9910563402) एवं श्री विवेक कनौजिया (+91 9205177091)

राजिन्दर सिंह पत्र श्री त्रिलोचन सिंह (अब मत)

इण्डियन ओवरसीन् बैंक

अलीगढ़ शाखा– नॉवल्टी टॉकीज के पास-जी.टी. रोड, अलीगढ़ -202001

1. कब्जा की तिथि

हजार छः सौ चौंतीस

कब्जा सुचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियाँ/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखाँ पर नोटिस की तारीख उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा **09 अक्टूबर 2020** ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन-देन न करे। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज बैंक, को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख , अगर कोई हो , की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज , शुल्क आदि , मुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित

क्र0 ऋणी / बंधककत सं0 गारन्टर का नाम व	delah whiled an idayu	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
 1. गैसर्स गुरु गोविंद सिंह शीट प्रो. हरमीत सिंह निवासी 13/6, सामने देहली गेट, अलीग (ऋणकर्ता) 2. श्री हरदयाल सिंह पत्र सरज िं 	खंटाकान, दहला गट, परगना सेंह निवासी अलीगढ़। सीमायें:— पूर्व: रास्ता लीगढ़,उत्तर इस साईंड़ का क्षेत्रफल 23 फीट 10 इंच, पश्चिम: चुन्नी लाल का मकान	अवासीय मकान संपत्ति असर नगर नेगम नंबर 10 / 285 का क्षेत्रफल 104 वर्ग मीटर, स्थित मौहल्ला खटीकान, देहली गेट, परगना, अलीगढ़। सीमायें:— पूर्वः रास्ता, इस साईड का क्षेत्रफल 23 फीट 10 इस साईड का क्षेत्रफल 23 फीट 10 इंथ, पश्चिमः चुन्नी लाल का मकान,	09.10.2020	रू 23,07,852.07 + अगामी ब्याज (30.09.2020 से) + अन्य शुल्क
 गैसर्स अनु मैन्युफैक्बरर्स ए प्रोप. अनु बाला निवासी 13/6, सामने देहली गेट, अलीग (ऋणकर्ता) श्री हरदयाल सिंह पुत्र र निवासी गुरुद्वारे वली गली वे अलीगढ़, उत्तर प्रदेश—202001 (ग बंधककर्ता) 	गुरुद्वारे के साईड़ का क्षेत्रफल 50 फीट द—202001 दक्षिण: सोहन लाल का मकान, इर सूरज सिंह इस्ली द्वार,	मांग नोटिस के		रू 8,25,462.72 + अगामी ब्याज (30.09.2020 से) + अन्य शुल्क
दिनांक— 12.10.2020	स्थान— अलीगढ़	У	ाधिकृत अ	घेकारी

सितंबर में नियुक्ति गतिविधियों में 24 फीसद का सुधार

मुंबई, 12 अक्तूबर (भाषा)।

महामारी के बीच जीवन अब सामान्य हो रहा है। वहीं नियुक्ति गतिविधियां भी अब धीरे-धीरे सुधर रही हैं। सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि सितंबर में नियुक्ति गतिविधियों में पिछले महीने की तुलना में 24 फीसद का सुधार हुआ। मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल्स और शिक्षा क्षेत्रों में नियुक्तियों की स्थिति सुधरी है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स सितंबर, 2020 के अनुसार समीक्षाधीन महीने में कुल नौकरियां-भर्तियां 1,755 रहीं।

आठ महीने के उच्च स्तर पर रही नई दिल्ली, 12 अक्तूबर (भाषा)।

फल व सब्जियों जैसे खाने का सामान महंगा होने से खुदरा महंगाई (मुद्रास्फीति) सितंबर में बढ़कर 7.34 फीसद पर पहुंच गई जो आठ महीने का उच्चतम स्तर है। इससे भारतीय रिजर्व बैंक के लिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए कर्ज की नीतिगत दर में कटौती करने का रास्ता और मुश्किल होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मल्य सचकांक (सीपीआइ) आधारित महंगाई दर इस साल अगस्त में 6.69 फीसद और

सितंबर 2019 में 3.99 फीसद थी। इससे पहले,

जनवरी 2020 में मुद्रास्फीति 7.59 फीसद थी। अक्तूबर 2019 तक मुद्रास्फीति करीब 4 फीसद के आसपास थी। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 10.68 फीसद हो गई जो अगस्त में 9.05 फीसद थी। सब्जियों की महंगाई दर सितंबर में बढकर 20.73 फीसद रही जो इससे पूर्व महीने में 11.41 फीसद थी। फलों की मुद्रास्फीति भी अगस्त के मुकाबले सितंबर में बढ़ी। अंडे की महंगाई दर सितंबर में बढ़कर 15.47 फीसद पहंच गई जो अगस्त में 10.11 फीसद थी।

खुदरा महंगाई पिछले महीने बढ़कर

सरकारी आंकड़े के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति ईंधन और प्रकाश खंड में घटकर सितंबर में 2.87 फीसद रही जो

शाखा कार्यालय: स्वाती पैलेस, प्रथम तल, वार्ड नं. 1, गव. हॉस्पीटल के निकट, फलोदी बस

पंजी. कार्यालयः प्लॉट नं. 15, छठा तल, सेक्टर-44, इस्टीच्यूशनल एरिया, गुरुग्राम, हरियाणा-122002

अचल सम्पत्ति के लिये वास्तविक कब्जा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान में

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम के

साथ पठित धारा 13 (2) तथा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना खाता के समक्ष

वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारक तथा साथ ही सम्पत्ति/प्रतिभृति के स्वामी को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर

जैसा कि सम्पत्ति के स्वामी तथा अन्य इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को

सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त

नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए

अब, विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न

करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज, लागत आदि के लिये इंडिया शेल्टर

जायल, जिला नागौर में माप 785.75 वर्ग | भूगतान की तिथि तक 1.2.2019 से

का सभी भाग तथा हिस्सा। चौहद्दीः उत्तरः साथ 31.01.2019 को रु.

फीट = 87.30 वर्ग यार्ड्स में स्थित सम्पत्ति ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं लागत के

मात्र)।

प्रभारित/गिरवी सम्पत्ति का विवरण

सभी भाग तथा हिस्सा)

ऋण खाता संख्याः HL2000001989 रास्ता अथवा निकल, दक्षिणः रास्ता, पूर्वः | 5,18,728/- (रुपये पांच लाख

पश्चिमः पुखराज बेतला का मकान

दामोदर, पुत्र गिरधारी साद का मकान,

(अधोलिखित में ग्रामिल सम्पत्ति का

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉपोरेशन लि.

सचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. के चार्ज के अधीन होगा।

सं. स्वामी)/ का नाम एवं ऋण खाता

एवं श्री लाल सिंह, सभीः मकान सं.

384, भाटियो की धानी, छपडा तह.

जायल, नागौर, राजस्थान-341022

स्थानः नागौर

तिथिः 10.10.2019

अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है

एक महीने पहले 3.10 फीसद थी। नायर ने कहा कि हालांकि समग्र खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा ऊंचा बना हुआ है, पर मुख्य मुद्रास्फीति (विनिर्मित वस्तुओं संबंधी महंगाई दर) पिछले तीन महीने से अपेक्षाकृत स्थिर बनी हुई है। यह राहत देने वाली बात है। इससे फरवरी 2021 में नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद बनी हुई है।

सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति दो फीसद घट-बढ के साथ चार फीसद पर रखने का लक्ष्य दिया हुआ है। पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान आरबीआइ गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि खुदरा मुद्रास्फीति का चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में लक्ष्य के आसपास रहने का अनुमान है।

IndiaShelter

भौतिक कब्जा

की तिथि

10.10.2020

(प्राधिकृत अधिकारी)

Office of the Executive Engineer Drinking Water & Sanitation Swarnrekha Headworks Division, Ranchi

Corrigendum

Tender published through P.R.no-233466(D.W&S.D)/20-21 & tender reference no. DWSD/Headworks/-O&M-01/20-21 dated 28/09/2020, appendix to ITB of Sl. No. 18 contained in the tender document should be read as "Value of one Similar Work for experience clause 4.5A(b) Rs 1420.255 Lakh" instead of "Value of one similar Work for experience Clause 4.5A(b) Rs 2840.51 Lakh"

Executive Engineer,

D.W.& S. Swarnrekha Headworks Division, Ranchi. PR 234134 (Drinking Water and Sanitation)20-21#D

एलएलपी अधिनियम, 2008, की धारा 13 एलएलपी अधिनियम, 2008, एवं एलएलपी नियमन, 2009, के नियम 17 के मामले में एवं क्लासिक पावर सिस्टम्स एलएलपी (जैसा यहाँ पर संदर्भित एलएलपी) के मामले में

सीमित देयता साझदारी आधीनेयम, 2008 की धारा 13(3) एवं सीमित देयता साझदारे नियमन, 2009 के नियम 17 के प्रावधानों के अनुसरण में आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि एलएलपी जिसका एलएलपीआई-1271 का पंजीकृत कार्यालय एल1, गली न॰ 31/7, संगम विहार, नई दिल्ली साऊथ दिल्ली डीएल 110080 से जे-1204, आम्रपाली प्लाटीनम्, सेक्टर-119 , नौयडा, गौतमबुध नगर, उत्तर प्रदेश, 201301 में बदलने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज/एलएलपी, दिल्ली से पुष्टीकरण के अधीन प्रस्तावित है।

जिस किसी व्यक्ति का एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से हित प्रभावित होता हो उसके विरोध के कारणों को शपथपत्र द्वारा समर्थित अभिरूचि एवं विरोध के आधारों को पंजीकृत डाक द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज/एलएलपी, दिल्ली, चौथी मंजिल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली -110019 को इस सूचना प्रकाशन की तिथि से इक्कीस (इक्कीस) दिनों के भीतर प्रस्तुत कर, उसकी एक प्रतिलिपि एलएलपी के वर्तमान उपरोक्त वर्णित पंजीकृत कार्यालय का भी प्रेषित करे।

प्रेम लता नामित साझेदार **DPIN: 00503759**

तिथि :13.10.2020 स्थान : दिल्ली

DSML

200ft. Bypass, Vaishali Nagar, Jaipur – 302 021. Ph:0141 – 2358654 | Tele Fax:0141 - 2359381

NOTICE

Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and MCA Circular No. 14/2020 dated 08 April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13 April, 2020 and Circular No. 22/2020 dated 15 June, 2020, in relation to "Clarification on passing of Ordinary and Special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 ("CA 2013") and the rules made thereunder the account of threat posed by Covid-19" issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India (the "MCA Circular"), and all other applicable rules framed under CA 2013 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the company has on October 08, 2020 completed dispatch of the postal ballot notice along with explanatory statement (in electronic form) to all the members whose email ids are registered with the company or with the depositories or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA). The Company seeks approval of the members for the below mentioned resolutions as set out in the postal ballot notice dated Thursday, October 01, 2020 by electronic means (remote e-voting)

Item No.	Particular	Туре
1	Regularization of Mr. Aakash Kumar as Executive Director	Ordinary Resolution
2	Regularization of Mr. Sonu Sharma as Non-executive Director	Ordinary Resolution
3	To issue, offer and allot Equity Shares on Preferential basis for consideration other than cash by way of conversion of unsecured loan	Special Resolution
4	To issue, offer and allot Equity Shares on Preferential basis for consideration other than cash against payment of lease rent	Special Resolution
5	Migration of Equity Shares of the Company from EMERGE Platform to Main Board of National Stock Exchange of India Limited (NSE)	Special Resolution

The members whose email ids are not registered with the company or Depository Participant(s) as on the Cut-Off Date are requested to register their email ids by sending an e-mail to Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the company, i.e. Cameo Corporate Services Limited, E-mail: cameo@cameoindia.com or to the company at cs@debockgroup.com with name of registered shareholder(s), folio number(s), DP ld/Client Id and Number of equity shares held from the email address they wish to register to enable them to exercise their vote on resolutions as set out in Postal ballot notice through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India)

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members. Members are requested to note that the voting, through remote e-voting will commence from Friday, October 09, 2020 (9:00 A.M. IST) to Saturday, November 07, 2020 (5:00 P.M. IST), the voting shall be disabled thereafter. The Notice is available on Company's website: www.debockgroup.com and on CDSL's e-voting

The Board of Directors has appointed M/s Ayush Khandelwal & Associates, Practicing Company Secretary Firm, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot only through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or

of the Company at cs@debockgroup.com. The results of the Postal Ballot remote e-voting will be declared by the Chairman or the Company Secretary of the Company on or before Monday, November 09, 2020 at the Registered Office of the Company. Such results, along with Scrutinizer's Report, will be available on the Company's website www.debockgroup.com under the 'Investors'

For Debock Sales & Marketing Limited

Mr. Mukesh Manveer Singh Chairman & Managing Director DIN: 01765408

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL ALLAHABAD BENCH COMPANY PETITION NO. 195/ALD/2020 Connected with

किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिये कृपया सम्पर्क करें: श्री मुकेश जांगिड़ (9950959994) अथवा श्री अजय गुप्ता (7906826375 एवं 0124-4131812

COMPANYAPPLICATION NO. 101/ALD/2020 In the matter of Companies Act, 2013

And

In the matter of Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises,

मांग सुचना तिथि

को बकाया राशि

अठारह हजार सात सौ अट्ठाईस

इंडिया शेल्टर फाइनांस कॉर्पोरेशन लि. के लिये

Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016

IN THE MATTER OF COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT BETWEEN HSB CORPORATE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED

...Petitioner Co. No. 1/ "Transferor Company 1"

And

JUBILANT STOCK HOLDING PRIVATE LIMITED ...Petitioner Co. No. 2/ "Transferor Company 2"

And

SSB CONSULTANTS & MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED ...Petitioner Co. No. 3/ "Transferor Company 3"

And

JCPL LIFE SCIENCE VENTURES AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED

...Petitioner Co. No. 4/ "Transferor Company 4"

And

JSPL LIFE SCIENCE SERVICES AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED

...Petitioner Co. No. 5/ "Transferor Company 5"

And

JUBILANT LIFE SCIENCES LIMITED

...Petitioner Co. No. 6/ "Transferee Company/Demerged Company"

And JUBILANT LSI LIMITED

...Petitioner Co. No. 7/ "Resulting Company"

And

their respective Shareholders and Creditors

Petitioner Company Nos. 1 to 5 have their registered office at 1A, Sector 16A, Noida, Gautam Budh Nagar - 201301, Uttar Pradesh, India while Petitioner Company Nos. 6 & 7 have their registered office at Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244223, Uttar Pradesh, India

NOTICE OF HEARING OF PETITION

Take notice that a Company Petition No.195/ALD/2020 connected with Company Application No. 101/ALD/2019 under Sections 230-232, read with Section 66 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Companies (Compromises, Amalgamations, and Amalgamations) Rules, 2016 was presented by the abovementioned Petitioner Companies for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s) the proposed Composite Scheme of Arrangement between HSB Corporate Consultants Private Limited ("Transferor Company 1"), Jubilant Stock Holding Private Limited ("Transferor Company 2"), SSB Consultants & Management Services Private Limited ("Transferor Company 3"), JCPL Life Science Ventures and Holdings Private Limited ("Transferor Company 4"), JSPL Life Science Services and Holdings Private Limited ("Transferor Company 5"), Jubilant Life Sciences Limited ("Transferee Company/ Demerged Company") and Jubilant LSI Limited ("Resulting Company") and their respective shareholders and creditors.

The said Petition was presented before the National Company Law Tribunal, Allahabad Bench ("Hon'ble NCLT") on 01.10.2020.

The said Petition is now fixed for final hearing on 03.11.2020 before the Hon'ble NCLT, Allahabad Bench.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send notice of such intention, signed by him/ her or his/her advocate, with his full name and address, to the Petitioner Companies' Advocate (undersigned) so as to reach the Petitioner Companies' Advocate not later than 2 (two) days before the date fixed for hearing of the Petition by the Hon'ble NCLT. Where he/she seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his/her affidavit intended to be used in opposition to the Petition, shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person

requiring the same on payment of the requisite charges for the same. (Rahul Agarwal) Counsel for the Petitioner Company Nos.1 to 7 Chamber No. 42 (New Building), High Court Allahabad-211 001

Place: Allahabad Date: 07.10.2020

Mobile: 9453091100 E-mail: agarwal.agarwal@gmail.com

www.readwhere.com

साथ बंद हुआ।

उम्मीदों से कम लगीं।

सूचकांक के शेयरों में सर्वाधिक लाभ में

बजाज ऑटो शामिल हैं।

रिलायंस सिक्योरिटीज के संस्थागत कारोबार के

73.28 पर बंद हुआ।

Sd/--

सार्वजनिक सूचना

क्लासिक पावर सिस्टम्स एलएलपी की ओर से उनके लिए

Registered Office: Debock House, 51, Lohiya Colony, Email: info@debockgroup.com Website:www.debockgroup.com CIN:L52190RJ2008PLC027160

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the

Members whose names are recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date i.e. October 03, 2020, will be entitled to cast their votes through remote e-voting. A person who is not a member on the Cut-Off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purpose only. On account of the threat posed by Covid-19 and in terms of the MCA Circulars, the Company will send this postal ballot notice in electronic form only. The hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for the postal ballot in accordance with the requirements specified under the MCA Circulars. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only.

website: www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently

call 1800-225-533 or to the Company at cs@debockgroup.com. Any queries/grievances relating to the proposed resolutions to be passed by postal ballot including e-voting may be addressed to Ms. Heena Lakhani, Company Secretary

section and will be forwarded to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and

October 13, 2020

Jaipur

इंडिया बिजनस ट्रेंड्स

न्यूज ब्रीफ...

पुरी समुद्र तट को मिला 'ब्लू फ्लैग' टैग

भुवनेश्वर / एजेंसी। पुरी में समुद्र तट यानी गोल्डन बीच को एफ ईई डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित 'ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन' दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले तट को सबसे साफतट माना जाता है। पुरी समुद्र तट देश के उन 8 समुद्र तटों में से एक है, जिसे फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एज्युकेशन,डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग टैग के रूप में मान्यता दी गई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि गोल्डन बीच को कड़े पर्यावरण मानकों और विश्वस्तरीय पर्यटक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिष्ठित टैग मिला है। यह प्रसिद्ध इको-लेबल इस विश्वस्तरीय हैरिटेज सिटी के आकर्षण को और बढ़ाएगा। यह टैग पाने के लिए बीच को 33 मानदंड पूरे करने होते हैं, जिसमें पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा जैसे एफईई द्वारा निर्धारित कई मानदंड शामिल हैं। यह बीच दिगबारेनी स्कवायर से मेफेयर होटल के बीच 870 मीटर में फैला है। इसे राज्य वन और पर्यावरण विभाग और पर्यावरण मंत्रालय के विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के तहत विकसित किया गया है।

आईटेल ने की टीवी रेंज की पेशकश

नई दिल्ली/आईएएनएस। स्मार्टफोन ब्रांड आईटेल ने फेस्टिव सीजन से पहले टेलीविजन सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसे लॉन्च करने का मकसद ग्राहकों और बाजार में अपनी पैठ जमाना है और उपभोक्ताओं को बेहतर अनुभव दिलाना है। आईटेल अपने मोबाइल फोन और स्मार्ट गैजेट्स को किपायती दामों में उपलब्ध कराकर तकनीक की दिशा में लोगों की पहुंच को बढ़ाया है। ब्रांड ने तीन श्रृंखलाओं - आई, सी और ए के तहत छह नए टीवी लॉन्च किए हैं। 32 से 55 इंच तक की टीवी को 8,999 रुपये से लेकर 34,499 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध कराया जा रहा है।

टेक्नो कैमन १६ भारत में लॉन्च

नई दिल्ली/आईएएनएस। प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड टेक्नो ने 64 एमपी क्वाड कैमरा सेटअप के साथ टेक्नो कैमन 16 लॉन्च किया है। इसमें आई ऑटो फोकस फीचर भी है, जो महज 10,999 रुपये में उपभोक्ताओं को शानदार फोटोग्राफी अनुभव देगा। कंपनी के अनुसार शानदार कैमरे वाला यह स्मार्टफोन, टेक्नो को भारत के मध्यम बजट स्मार्टफोन बाजार में एक मजबूत जगह बनाने और बाजार में अच्छी हिस्सेदारी पाने में मदद करेगा। स्मार्टफोन 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में उपलब्ध होगा।

भारतीय रेल को उच्च गति क्षमता देने की बनाई गई योजना

नई दिल्ली / एजेंसी । केंद्र सरकार ने रिववार को कहा कि भारतीय रेल नेटवर्क को उच्च गति की क्षमता वाले नेटवर्क में अपग्रेड करने के लिए व्यापक योजना पर काम कर रही है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता डीजे नारायण ने कहा कि जहां भी ट्रेन की गति 130 किमी प्रति घंटे से अधिक होगी, वहां वातानुकूलित कोच का इस्तेमाल जरूरी होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज के ट्रैक को 130 किमी से 160 किमी प्रति घंटे की गति के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। नॉन एसी स्लीपर कोच की जगह एसी कोच लगाए जाएंगे। ये उन्हीं ट्रेनों के लिए होगा जो 130 से 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। नारायण ने कहा कि एसी कोच अनिवार्य रूप से 130 या 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेनों की तकनीकी जरूरत है। कुछ कॉरिडोरों में गित क्षमता पहले ही 130 किमी प्रति घंटे पर अपग्रेड हो चुकी है। हवा और मौसम जैसे फैक्टर की वजह से केवल कुछ विशेष प्रकार के कोच ही हाई स्पीड पर चल सकते हैं। अधिकारी ने कहा कि रेल कोच फैक्ट्री में एसी कोच का एक प्रोटोटाइप तैयार किया जा रहा है। इसमें कुछ हफ्ते और लगेंगे। फ्लिहालए 83 बर्थ वाले कोच का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। योजना है कि इस साल 100 कोच और अगले साल 200 कोच बनाए जाएं। इन कोचों का मूल्यांकन किया जाएगा और इन कोचों को चलाने से प्राप्त अनुभव को आगे उपयोग में लाया जाएगा। नॉन एसी कोच वाले ट्रेन 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहेंगी।

भारतीय नहीं परचेज कर रहे

एनर्जी एफिशियंट एयर कंडीशनर

नर्ड दिल्ली / एजेंसी। अधिक एयर कंडीशनर खरीदना एनर्जी लेबलिंग प्रोग्राम है।

चाहते हैं लेकिन वास्तव में

कर रहे हैं। अधिकांश

प्रोग्राम को विश्वसनीय व

एन्वायरमेंट एंड वाटर ने किया

है। सीईईडब्ल्यू में प्रोग्राम

लीडर ने कहा है कि भारत में

सेवलॉन ब्राण्ड के तहत नौ

काउंसिल

सेवलॉन की बिक्री टच कर सकती

है १००० करोड़ का आंकड़ा

प्रतिभागी एनर्जी एफिशियंट दुनिया का सबसे सफल

संख्या में भारतीय कन्ज्यमर

हाई स्टार लेबल्ड या एनर्जी

एफिशियंट एयर कंडीशनर

परचेज तो करना चाहते हैं

संख्या काफी कम है। कहने

का मतलब यह है कि वे

एनर्जी एफिशियंट एयर

कंडीशनर परचेज नहीं कर रहे

हैं। हाल ही में किये गये शोध

के अनुसार 70 प्रतिशत

कोलकाता / एजेंसी । आईटीसी

कम्पनी के इस ब्राण्ड को

प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, वितरण में

विस्तार और हैल्थ एंड हाइजीन

प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ने के

कारण यह ग्रोथ प्राप्त हो रही है।

प्रिंट मीडिया की खबरों को सही मानते हैं 66.5 % रीडर्स

नई दिल्ली/आईएएनएस। भारत के दो तिहाई से अधिक (66.5 फीसदी) लोगों का मानना है कि समाचारपत्र अभी भी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जानकारी आईएएनएस सी वोटर मीडिया ट्रैकर में सामने आई है। अखिल भारतीय स्तर पर किए गए इस सर्वेक्षण में 66.5 प्रतिशत प्रतिभागी इस बात से सहमत नजर आए कि समाचारपत्र अभी भी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जबिक 29.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर असहमति व्यक्त की। कोविड.19 महामारी के समय में जानकारी के महत्व को देखा जाए तो 63.1 प्रतिशत लोगों ने कहा कि कोरोना के बाद पाठकों के लिए अखबार पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जबिक 31.2 प्रतिशत लोग इस बात से असहमत नजर आए।

75.5 प्रतिशत ने कहा कि वे सभी समाचारों और ताजा घटनाओं के समग्र कवरेज के लिए समाचारपत्र पढ़ना पसंद करते हैं, जबकि इस धारणा से 12.5 लोग असहमत थे। सर्वेक्षण के दौरान सामने आया कि देश के 75.5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि वे समग्र कवरेज करंट अफेयर्स के लिए समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, जबिक केवल 12.5 प्रतिशत लोग ही इससे



असहमत हैं। अखबारों की तुलना टीवी न्यूज चैनल की बहस के साथ किए जाने पर 72.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि एक अखबार की रिपोर्ट टीवी चैनल में चिल्लाकर होने वाली बहस से कहीं अधिक जानकारी देती है, जबिक 21.5 प्रतिशत लोग इससे असहमत रहे।

सर्वेक्षण में पाया गया कि समाचार को फोन पर सिक्रय रूप से साझा किया जाता है। सर्वे में 68.1 प्रतिशत लोगों ने कहा कि जब मैं कुछ

महत्वपूर्ण पढ़ता हूं, तो मैं इसे फोन पर अन्य लोगों से साझा करता हूं। हालांकि, टीवी की पहुंच को देखते हुए 40 प्रतिशत लोगों ने टीवी समाचार चैनलों को सूचना के सबसे भरोसेमंद स्रोत के रूप में पहचाना। वहीं 29.2 प्रतिशत ने इस मामले में समाचारपत्र को तवज्जो दी। इसके अलावा 14.9 प्रतिशत ने सोशल मीडिया 4.5 प्रतिशत ने रेडियो और एफएम और 2.5 प्रतिशत लोगों ने वेबसाइट पर भरोसा जताया। टीवी चैनलों में

विज्ञापन के कारण सिर्फचीजें खरीदने के सवाल पर 76.5 प्रतिशत ने इस बात पर असहमति जताई जबिक 19.3 प्रतिशत इससे सहमत दिखे। 74.5 प्रतिशत ने कहा कि टीवी चैनलों में विज्ञापन मनोरंजन वैल्यू के लिए अधिक हैं, जबिक 18.5 प्रतिशत इससे असहमत नजर आए। सर्वे के दौरान 67.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि आईपीएल मैचों के दौरान बहुत अधिक विज्ञापन ब्रेक होते हैं, जबिक 12.7 असहमत रहे। इसके अलावा 65.2 प्रतिशत ने कहा कि वे बिना किसी ब्रेक के क्रिकेट मैच देखना चाहते हैं। सर्वेक्षण में एक और महत्वपूर्ण बात का पता चली कि 52.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि लाइव मैच देखने के बाद भी वे इसके बारे में अखबार में पढ़ना पसंद करते हैं, जबिक 30.2 प्रतिशत लोग इससे असहमत रहे। कुल 65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अखबारों में विज्ञापन अधिक उपयोगी हैं, जबिक 24.6 प्रतिशत इससे असहमत नजर आए। इस सर्वेक्षण में पूरे भारत से सभी राज्यों के सभी जिलों से आने वाले पांच हजार से अधिक उत्तरदाताओं से सवाल पूछे गए थे। यह सर्वेक्षण वर्ष 2020 में सितंबर के अंतिम सप्ताह और अक्टूबर के पहले सप्ताह में किया गया था।

एवरेज खुदरा किराये में 14 % की गिरावट



नई दिल्ली/एजेंसी। कोरोना महामारी ने चूंकि व्यापार पर बुरा प्रभाव डाला है, इसलिए महंगी कॉमर्शियल जगहों के किराए में भी गिरावट आई है। राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख रिटेल स्थानों-कनॉट प्लेस, खान मार्केट और साउथ एक्सटेंशन (प्रथम व द्वितीय) में औसत मासिक खुदरा किराए में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। कुशमैन एंड वेकफील्ड का एक रिपाट में यह जानकारा दा । आसते खुदरा किराए में क्रमशः ।

यदि लोग बेहतर एयर

कंडीशनर लेबलिंग की

परचेज करते हैं तो ग्रीनहाउस

गैस उत्सर्जन में कमी आयेगी।

भारत के कृलिंग सेक्टर में

इससे 46 प्रतिशत (2010 से

2050 के बीच)लाभ होगा।

उनके अनुसार यदि लोग

सस्टेनेबल लाइफस्टाइल

प्रेक्टिस अपनाते हैं तो इसका

लाभ पर्यावरण को अवश्य

गई है। साल 2020 में तीसरी तिमाही के दौरान खान मार्केट में एक महीने का औसत खुदरा किराया 1,200 रुपये प्रति वर्गफीट

साउथ एक्सटेंशन (प्रथम व द्वितीय) में औसत खुदरा किराए क्रमशः 900 रुपये और 600 रुपये थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य वाणिज्यिक क्षेत्रों में भी किराए पर असर पड़ा। गुरुग्राम के सेक्टर.29 और नोएडा के सेक्टर.18 में

23 फीसदी और 28 फीसदी की गिरावट आई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किराया पुनर्मूल्यांकन रिटेलर-डेवलपर की बातचीत में एक प्रमुख विशेषता बनी हुई है क्योंकि फिजिकल रिटेलिंग व्यावसायिक गतिविधि ने महामारी के कारण एक गंभीर रूप ले लिया है और कई खुदरा विक्रेताओं ने ई-कॉमर्स का रुख किया है, जहां उन्हें ज्यादा सफ्लता नजर आ रही है। शहर में कुछ बड़े मॉल संचालकों द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए विभिन्न अवधियों के लिए किराये के भुगतान में छूट दी जा रही है और साथ ही नए लेनदेन के लिए भी सहमति दी जा रही है, भले ही अल्पकाल के लिए हो।

रिपोर्ट में कहा गया कि इसी तरह, कनॉट प्लेस और जबिक खुदरा विक्रेताओं ने किराये में छूट की मांग जारी रखी और सुस्त बिक्री के समय में वे शुद्ध राजस्व हिस्सेदारी की जुगत में हैंए वहीं मॉल मालिकों ने इसे अगले 6-9 महीनों के लिए अल्पावधि के रूप में देखा है जबकि एक निश्चित समय से परे बढी हुई किराए की

फेस्टिव सीजन में लोगों का रुझान रह सकता है ऑनलाइन की ओर

नई दिल्ली/एजेंसी। त्यौहारों के मौसम की शुरूआत अब बस होने ही वाली है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इसी बीच एक सर्वे के मुताबिक, इस बार ऑनलाइन शॉपिंग में 51 फीसदी तक की

तेजी आई है। वर्ष 2019 में के ऐप का इस्तेमाल करेंगे हुए लोकल सर्कल्स में केवल क्योंकि पिछले साल की तुलना 27 फीसदी ही ग्राहक ऐसे थे में इस बार कुछ बदलाव आया जिनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग

रही थी हालांकि इस बार यह कुछ अलग है। वर्ष 2020 में त्यौहारों के इस मौसम में लोकल सर्कल्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि इस बार 51 फ ीसदी लोग शॉपिंग के ई-कॉमर्स साइट या तरह-तरह



अनिश्चित दिखे हैं। इस सर्वेक्षण को भारत के 330 से अधिक जिलों के तीन लाख से अधिक लोगों में अंजाम दिया गया।

DSML

Members are hereby informed that pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and MCA Circular No. 14/2020 dated 08 April, 2020 Circular No. 17/2020 dated 13 April, 2020 and Circular No. 22/2020 dated 15 June, 2020, in relation to "Clarification on passing of Ordinary and Special resolutions by companies under the Companies Act, 2013 ("CA 2013") and the rules made thereunder the account of threat posed by Covid-19" issued by Ministry of Corporate ernment of India (the "MCA Circular"), and all other applicable rules framed under CA 2013 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), the company has on October 08, 2020 completed dispatch of the postal ballot notice along with explanatory statement (in electronic form) to all the members whose email ids are registered with the company or with the depositories or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA). The Company seeks approval of the members for the below mentioned resolutions as set out in the postal ballot notice dated Thursday, October 01, 2020 by electronic means (remote e-voting)

Item No.	Particular	Туре
1	Regularization of Mr. Aakash Kumar as Executive Director	Ordinary Resolution
2	Regularization of Mr. Sonu Sharma as Non-executive Director	Ordinary Resolution
3	To issue, offer and allot Equity Shares on Preferential basis for consideration other than cash by way of conversion of unsecured loan	Special Resolution
4	To issue, offer and allot Equity Shares on Preferential basis for consideration other than cash against payment of lease rent	Special Resolution
5	Migration of Equity Shares of the Company from EMERGE Platform to Main Board of National Stock	Special Resolution

Members whose names are recorded in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off date i.e. October 03, 2020, will be entitled to cast their votes through remote e-voting. A person who is not a member on the Cut-Off date should accordingly treat the Postal Ballot Notice as for information purpose only.On account of the threat posed by Covid-19 and in terms of the MCA Circulars, the Company will send this postal ballot notice in electronic form only. The hard copy of the postal ballot notice along with postal ballot forms and pre-paid business envelope will not be sent to the members for the postal ballot in accordance with the requirements specified under the MCA Circulars. Accordingly, the communication of the assent or dissent of the members would take place through the remote e-voting system only.

The members whose email ids are not registered with the company or Depository Participant(s) as on the Cut-Off Date are requested to register their email ids by sending an e-mail to Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the company, i.e. Cameo Corporate Services Limited, E-mail: cameo@cameoindia.com or to the company at cs@debockgroup.com with name of registered shareholder(s), folio number(s), DP Id/Client Id and Number of equity shares held from the email address they wish to register to enable them to exercise their vote on resolutions as set out in Postal ballot notice through remote e-voting facility provided by Central Depository Services (India)

The Company has engaged services of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for the purpose of providing remote e-voting facility to all its members Members are requested to note that the voting, through remote e-voting will commence from Friday, October 09, 2020 (9:00 A.M. IST) to Saturday, November 07, 2020 (5:00 P.M. IST), the voting shall be disabled thereafter. The Notice is available on Company's website: www.debockgroup.com and on CDSL's e-voting website: www.evotingindia.com

The Board of Directors has appointed M/s Ayush Khandelwal & Associates, Practicing Company Secretary Firm, as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot only through remote e-voting process in a fair and transparent manner.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com o call 1800-225-533 or to the Company at cs@debockgroup.com

Any queries/grievances relating to the proposed resolutions to be passed by postal ballot including e-voting may be addressed to Ms. Heena Lakhani, Company Secretary of the Company at cs@debockgroup.com.

The results of the Postal Ballot remote e-voting will be declared by the Chairman or the Company Secretary of the Company on or before Monday, November 09, 2020 at the Registered Office of the Company. Such results, along with Scrutinizer's Report, will be available on the Company's website www.debockgroup.com under the 'Investors section and will be forwarded to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and

For Debock Sales & Marketing Limiter

October 13, 2020

बढ़ रही है सीए फ्रेशर्स की डिमांड

नई दिल्ली / एजेंसी । सीए इन्स्टीट्यूट के लेटेस्ट प्लेसमेंट डाटा के अनुसार इंडस्ट्री में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। इकोनॉमी में बेशक ज्यादा सुधार नजर नहीं आ रहा हो लेकिन फ्रेश सीए की मांग आ रही है। संस्थान द्वारा पहली बार वर्च्युअल कैम्पस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किये गये और फ्रेश सीए प्लेसमेंट में 37 प्रतिशत की बढोतरी रही है। गत वर्ष 2135 ऑफर्स आये थे जबिक गत माह 2923 ऑफर्स आये हैं। औसत 8.91 लाख रुपये रहा जबकि गत वर्ष यह 7.43 लाख रहा था। फ्रेश सीए को सबसे ज्यादा ऑफर की

जाने वाली सैलरी 23.28 लाख रुपये रही। गत वर्ष सबसे ज्यादा ऑफर 24 लाख प्रतिवर्ष का था। इस बार फ्रेश सीए लेने वाली कम्पनियों में पीडब्ल्यूसी, इन्फोसिस, टीसीएस, जैनपैक्ट, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक शामिल रहे। आईसीएआई के अध्यक्ष के अनुसार यह कहना सही नहीं होगा कि जब इकोनॉमी बूस्ट होती है तो ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मांग बढ़ती है। आजकल कम्पनियों का साउंड प्रोफेशनल एडवाइजर्स की जरूरत होती है जो फाइनेंस, वर्किंग कैपीटल आदि को मैनेज कर सकें। सीए अपनी शिक्षा

अच्छे से कर पाते हैं। गौरतलब है कि फ्रेश सीए ही नहीं, एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी डिमांड है। इस त्यौहारी मौसम में लोगों का रुझान ऑनलाइन खरीदारी की ओर दिल्ली/आईएएनएस। त्यौहारों के मौसम की शुरूआत अब बस होने ही वाली है। इसे

और ट्रेनिंग के तहत यह काम

लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।

इसी बीच एक सर्वे के मुताबिक,

इस बार ऑनलाइन शॉपिंग में 51

फीसदी तक की तेजी आई है।

साल 2019 में हुए लोकल

सर्कल्स में केवल 27 फीसदी ही

ग्राहक ऐसे थे, जिनकी पहली

प्राथमिकता ऑनलाइन शॉपिंग रही

थी, हालांकि इस बार यह कुछ

अलग है। साल 2020 में त्यौहारों

के इस मौसम में लोकल सर्कल्स

द्वारा किए गए सर्वेक्षण में यह बात

सामने आई है कि इस बार 51

फीसदी लोग शॉपिंग के लिए ई-

कॉमर्स साइट या तरह-तरह के ऐप

का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पिछले

साल की तुलना में इस बार कुछ

बदलाव आया है। इसके अलावा,

अगर हम लघु, मझले व कुटीर

उद्योगों से खरीददारी की बात

करें, तो 80 फीसदी लोगों ने

इसके लिए हांमी भरी है, केवल

10 फीसदी ही ऐसे रहे हैं, जिन्होंने

अपना जवाब ना में दिया है और

10 फीसदी इस बारे में अनिश्चित

दिखे हैं। इस सर्वेक्षण को भारत

के 330 से अधिक जिलों के तीन

लाख से अधिक लोगों में अंजाम

दिया गया।



ऑडियो एसेसरीज ब्राण्ड बोल्ट ऑडियो ने एलईडी पॉवर्ड इयरबड्स लांच किये हैं।

उत्पाद पेश किये गये हैं। इनमें लिमिटेड का हैल्थ एंड हाइजीन ब्राण्ड सेवलॉन गत वित्तीय वर्ष डिसइन्फेक्टेंट स्प्रे, मास्क, के मुकाबले में तीन से चार गुना क्लोथ स्प्रे, वाइप, सोप, बॉडी वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। वॉश आदि शामिल हैं। कोरोना इससे लगता है कि चालू वित्तीय महामारी के कारण सेवलॉन के प्रोडक्ट्स को काफी अच्छा बूस्ट वर्ष में वह 1000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा प्राप्त कर मिला है। कम्पनी ने करीब पांच सकता है। कम्पनी के एक वर्ष पूर्व जॉनसन एंड जॉनसन से अधिकारी के अनुसार सेवलॉन सेवलॉन ब्राण्ड का अधिग्रहण एकमात्र ऐसा ब्राण्ड होगा जो किया था। गत वित्तीय वर्ष में इस रेवेन्यू माइलस्टोन को प्राप्त पर्सनल केयर बिजनेस में विवेल करेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 का योगदान सबसे ज्यादा रहा था में 250 करोड़ की बिक्री प्राप्त और इसके बाद एंगेज डियोडरेंट की गई थी। उनके अनुसार

का नम्बर रहा। इसके अलावा फूड ब्राण्ड्स में आर्शीवाद आटा, सनफीस्ट बिस्कुट, बिंगो स्नेक्स, क्लासमेंट स्टेशनरी, यिप्पी नूडल्स भी बड़े ब्राण्ड्स में शामिल हैं।

जिग बड्स लांच...

इन्हें जिग बड्स नाम दिया गया है। – आईएएनएस